



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2013 / 12 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th November, 2013

No. Shiksha-II-Ga(17)-2/2009-Loose.—As per the decision taken in 37th Executive Committee in its meeting held on 12th August, 2013 *vide* item No. 21 and in continuation of notification of even number dated 1st February, 2010, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the implementation of RMSA at district level / Sub district level as follows:—

- (a) The Deputy Commissioner of the district concerned shall act as Chairperson of the RMSA.

- (b) Deputy Directors, Higher Education who have already been designated as District Project Coordinators shall coordinate various activities of RMSA through District Project Officers, Block Project Officers and Block Resource Coordinators.
- (c) All funds of RMSA for the district shall be routed through Principal DIET who will also act as District Project Officer (RMSA). The existing SSA structure at the district level and block level shall be responsible for RMSA implementation in the state. SSA Coordinators at DIETs shall also implement and coordinate all RMSA activities.
- (d) Principal of the Block HQ Senior Secondary School shall also act as Block Project Officer for RMSA. BRC Upper Primary shall look after the work of BRC RMSA also in addition to SSA work.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Education).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, श्रीनैना देवीजी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा : 18-11-2013

गांव : खुराणी।

श्री मघर सिंह पुत्र श्री गोकल, निवासी गांव अम्ब-दा-हार, परगना चम्बा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता गांव खुराणी, तहसील श्रीनैना देवीजी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
... फरीकदोयम।

राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र।

समन बनाम आम जनता गांव खुराणी।

उपरोक्त विषय पर श्री मघर सिंह पुत्र श्री गोकल, निवासी गांव अम्ब-दा-हार, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किया है कि गांव खुराणी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मंगल सिंह गलत दर्ज किया गया है। उसका नाम मघर सिंह है, जोकि सही है। उक्त बारे उसने अपना ब्यान हल्फी, शिक्षा का प्रमाण-पत्र व राजस्व अभिलेख संलग्न किए हैं। अतः उसका सही नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

अतः किसी भी व्यक्ति को मंगल सिंह के बजाए मघर सिंह दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 21-12-2013 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। दिनांक 21-12-2013 के पश्चात् कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम मंगल सिंह के बजाए मघर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
श्रीनैना देवीजी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बालो धर्मपुत्री श्री शम्भू निवासी गांव चण्डयोल व महाल पुढन, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बाबत मकफूद—उल—खबरी किए जाने तस्दीक इन्तकाल नं0 350 महाल बाडी, इन्तकाल नं0 462 महाल भद्रोह व इन्तकाल नं0 273 महाल पुढन, श्रीमती बालो धर्मपुत्री श्री शम्भू निवासी गांव चण्डयोल व महाल पुढन, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उनका ताया वर्ष 1947 से लापता है। उनके ताया श्री चूहडू पुत्र श्री बीरबल पुत्र श्री बालकू का आज तक जिन्दा या मरने बारे कुछ पता न चल सका है। उनकी बरास्त का इन्तकाल अब उसके जायज वारसान श्रीमती बालो धर्मपुत्री श्री शम्भू निवासी गांव चण्डयोल व महाल पुढन, परगना भान्दल के नाम दर्ज व तस्दीक होना है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री चूहडू पुत्र श्री बीरबल पुत्र श्री बालकू बारे कोई सूचना हो या इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 26-12-2013 को इस न्यायालय में 10.00 बजे असातन या वकालतन उपस्थित होकर अपने अपना उजर—एतराज प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद इन्तकाल बहक जायज वारसान दर्ज व तस्दीक कर दिया जाएगा और कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, उप—मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा : 18-11-2013

श्रीमती सुरेखां देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गारनी, डा0 कलूर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम की दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थिया श्रीमती सुरेखां देवी पत्नी श्री रतन चन्द, वासी गारनी, डा0 कलूर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 18-11-2013 को इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके पति के आर्मी रिकॉर्ड में सुरेखां देवी दर्ज है परन्तु उसका नाम ग्राम पंचायत कलूर, विकास खण्ड नादौन के रिकॉर्ड में गलती से सुरेश कुमारी दर्ज हो गया है। अतः उसके नाम को दुरुस्त करके सुरेश कुमारी के स्थान पर सुरेखां देवी किया जावे।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इसका नाम दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर कार्यालय होकर पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर नाम की दुरुस्ती कर दी जाएगी।

आज दिनांक 18-11-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

बलवीर ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री डी० सी० ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री जोगू राम, निवासी झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री जोगू राम, निवासी झिकली भेट, डाकघर झिकली भेट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका (स्वयं का) जन्म दिनांक 7-8-1976 को महाल झिकली भेट में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी० सी० ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KANGRA AT DHARAMSHALA**NOTICES***Kangra at Dharamshala, the 16th November, 2013*

No. 1025-29/LB.—Shri Anuj Gupta, Advocate s/o Late Shri Pritam Chand, r/o Mandir Road Opp. Gurumukh Sarai Kangra, Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of General Public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 12-12-2013.

Kangra at Dharamshala, the 16th November, 2013

No. 1030/LB.—Shri Ashwani Kumar, Advocate s/o Shri Kapil Dev, Village and Post Office Indora, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of General Public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 12-12-2013.

Kangra at Dharamshala, the 21st November, 2013

No. 1052/LB.—Shri Jagvinder Singh Randhawa, Advocate s/o Late Shri Nasib Singh Randhawa, r/o Village and Post Office Palera, Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of General Public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 30-12-2013.

Sd/-

*Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.*

ब अदालत श्री सुदेश कुमार मोखटा (भा0 प्र0 से0), विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0), निचार स्थित
भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. श्री सचिन वर्मा पुत्र श्री टी0 एस0 वर्मा, गांव भ्यूली, तहसील व जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
2. नेहा वर्मा पुत्री श्री प्रवीण कुमार महाजन, निवासी गांव चडी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थीगण ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण ।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 15, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमें में श्री सचिन वर्मा व नेहा वर्मा ने दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को अदालत हजा में प्रस्तुत होकर प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23 फरवरी, 2009 को आपसी रजामंदी से विवाह

किया है और तब से पति-पत्नी के तौर पर रहते आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकरण करने की प्रार्थना की है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर-एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

सुदेश कुमार मोख्टा,
विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री सुखदेव पुत्र श्री चम्बा राम, निवासी गांव उरनी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इशतहार बाबत पुत्र का नाम दुरुस्त करने बारे।

उपरोक्त दरखास्त बराए पुत्र आदित्य शंकर का नाम परिवार रजिस्टर में इन्द्राज करने बारे प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा गुजारिश की गई है कि प्रार्थी के हकीकी पुत्र का वास्तविक नाम आदित्य शंकर पुत्र श्री सुखदेव है जो सही व दुरुस्त है। प्रार्थी का हकीकी पुत्र आदित्य शंकर का पंचायत परिवार रजिस्टर में नाम अखिल इन्द्राज हुआ है जो गलत है। जिसे प्रार्थी दुरुस्त कर आदित्य शंकर करना चाहता है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत उरनी को आदेश दिया जाए कि वह अखिल का नाम आदित्य शंकर पुत्र श्री सुखदेव, निवासी ग्राम उरनी, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर में बतौर पुत्र इन्द्राज किया जाए और भविष्य में अखिल को आदित्य शंकर नाम से ही जाना जाए।

अतः आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को आदित्य शंकर पुत्र श्री सुखदेव, निवासी ग्राम उरनी, तहसील निचार के परिवार रजिस्टर में आखिल के बजाए आदित्य शंकर इन्द्राज करने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा अखिल का नाम आदित्य शंकर पुत्र सुखदेव, निवासी ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में आदित्य शंकर इन्द्राज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिया जावेगा।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Devi Singh s/o Shri Mast Ram, r/o Village Kamalti, P. O. Kiar Koti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Shri Devi Singh s/o Shri Mast Ram, r/o Village Kamalti, P. O. Kiar Koti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Birth and Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his wife named Smt Basanti Devi in the record of Birth and Death G. P. Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural). The Secretary-cum-Registrar, G. P. Baldeyan has issued NAC No. nil on dated 7-7-2013, as following:—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Death
1.	Late Smt. Basanti Devi	w/o Shri Devi Singh	9-5-1998

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of death of Late Smt. Basanti Devi in the record of G. P. Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today the 28th November, 2013 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh.*

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE

Nahan, the 23rd November, 2013

No. SDM-N(R)/Public Notary/2013-3041.—Whereas, Shri Shakil Ahmad Sheikh, Advocate s/o Shri Akhtar Ali, r/o Village Puruwala, P.O. Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmour (H. P.) presently residing at Mohalla Gunnughat, Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Shri Kamal Jeet Sharma, Advocate s/o late Shri Chakar Dhar resident of Housing Board Colony, Mohal Amrpur, Nahan, District Sirmaur (H. P.), presently both practicing as advocates at Nahan, have applied for the appointment as Notary Public in this Sub-Division;

And whereas, the action under rules 6 and 7 of the Notaries Rules, 1956 is required to be taken on the application of the said advocates.

Therefore, objection, if any, to the appointment of the applicants as Notary Public are hereby invited from the general public, Bar Association and other authorities of Nahan Sub-Division by issuing this notice under rule 6(b) of the said rules within fourteen days of such publication so that further action could be taken in the matter accordingly.

Issued on the 24th day of November, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmour (H. P.).*